

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 441] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 6, 1976/आश्विन 14, 1898

No. 441] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 6, 1976/ASVINA 14, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 6th October 1976

S.O. 656(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9 of the Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Nationalisation) Act, 1976 (No. 97 of 1976) and in continuation of the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Heavy Industry) No. S.O. 424(E), dated the 23rd June, 1976, the Central Government hereby appoints Shri S. N. Chattopadhyay as Custodian, in relation to the undertakings of the two Companies, namely Messrs Burn and Company Limited and Messrs Indian Standard Wagon Company Limited for a period onwards from the 30th September, 1976 until further orders, in addition to Shri N. R. Bhargava, who will be on foreign tour during the aforesaid period.

[No. F. 3 (35)/76/HM-III]

S. M. GHOSH, Addl. Secy.

(1903)

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 1976

कां. प्रां. 656 (प्र).—बर्न कम्पनी तथा इण्डियन स्टैंडर्ड बैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1976 (1976 की संख्या 97) की धारा 9 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के आदेश सं० का० प्रा० 424 (ड), दिनांक 23 जून, 1976 को जारी रखते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एस० एन० चट्टोपाध्याय को 30 सितम्बर, 1976 के आगे से आगामी आदेशों तक की अवधि के लिए श्री एन० आर० भार्गव के स्थान पर जो उक्त अवधि में विदेश यात्रा पर होंगे, दो कम्पनियों के उपक्रमों अर्थात् मे० बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड तथा मे० इण्डियन स्टैंडर्ड बैगन कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में संरक्षण नियुक्त करती है।

[सं० फा० 3(35)/76/एच० एम०-III]

एस० एम० घोष, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टा रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976